

THE
PARLIAMENTARY DEBATES

OFFICIAL REPORT

IN THE HUNDRED AND TWELFTH SESSION OF THE RAJYA SABHA

Commencing on the 23rd January, 1980/ the 3rd Magha, 1901 (Saka)

RAJYA SABHA

*Wednesday, the 23rd January, 1980/
the 3rd Magha, 1901 (Saka)*

The House met at fifteen minutes past twelve of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

PRESIDENT'S ADDRESS

SECRETARY-GENERAL: Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 23rd January, 1980.

[Text of the President's Address in English]

Honourable Members, it gives me pleasure to welcome you to this first joint session of the Seventh Parliament. I extend my felicitations to the members of the new Lok Sabha.

The Sixth Lok Sabha was elected in March 1977. But it could not last its full term and had to be dissolved less than half-way through. After its dissolution, the governance of the country had to be carried on for some months without a Lok Sabha. Happily the uncertainty of these last few months has been resolved. The people of India have through the democratic process unambiguously rejected philosophies based on regional, linguistic, sectoral or communal differences and have chosen to be governed by those who derive their mandate from all parts of the country and all sections of the population. The result of

the elections has made it possible for the country to look forward to a period of stable government at the Centre.

It is a matter of regret that today we do not have amongst us here representatives from a number of constituencies of some of the North-Eastern States. The problems of this region, and more especially of Assam at the moment, require to be dealt with urgently and in a spirit of understanding and mutual accommodation on all sides. The Government will spare no pains to secure speedy solutions to these problems and to put an end to violence. Government appeals to all sections of the people to help in creating conditions conducive to this.

Anti-national forces have become active on our borders posing a fresh threat to our security. Communal and other divisive forces have also reared their ugly heads in different parts of the country causing serious prejudice to our ideals of national integration and national unity. The confidence of linguistic and other minorities, Harijans and weaker sections of the society has been seriously eroded. Increase in crime and inadequacy of measures to detect and prevent crime have created a sense of insecurity in the minds of law-abiding people. Disrespect for law and widespread indiscipline have slowed down the wheels of productive endeavour.

The economic situation which the present Government has inherited is a matter of grave concern and anxiety. The last year has witnessed a vicious

inflationary spiral with prices registering a rise of about 20%. There has been a severe set-back in agricultural production while industrial production has remained stagnant. The breakdown of infra-structure, particularly in certain parts of the country, has led to sharp reduction in output in key sectors, such as steel and cement. This has necessitated costly imports from abroad while domestic capacity built at considerable cost has remained idle. There has been virtually no increase in the production of coal. The rate of growth of exports has slackened and the balance of trade is seriously in deficit. Lack of effective management has resulted in a deterioration of the national economy. There has been a worsening of industrial relations and a loss of morale in the entire industrial sector.

The massive and broadbased confidence reposed by the people in the new Government reflects a keen desire that the deterioration in the law and order sector as well as in the economy should be halted and reversed. The Government would like to assure the people that this is indeed what it proposes to do with determination and speed.

The Government will do its utmost to put down lawlessness and restore confidence amongst all people, especially those belonging to the weaker sections. The law enforcement agencies at the Centre and in the States will be activated, so that problems are dealt with promptly and effectively.

Honourable Members, the new Government has taken charge just over a week ago. The Budget will be presented in the next Session when the socio-economic measures proposed to be adopted in the furtherance of Government's broad objectives will be spelt out. However, there are certain matters which require to be mentioned.

The Government would like to reaffirm its commitment to planning as an essential tool for engineering social and economic change. The great task of nation-building will have to be resumed with redoubled vigour so that coming generations can hope for a fuller and better life.

The Government will devote immediate attention to restoring the economic health of the nation. Measures for the control of prices will be initiated. Stringent action will be taken against anti-social elements such as smugglers, hoarders and black-marketeters.

The Government is conscious of its duty to the weaker sections of society. The 20-point economic programme, which had proved a boon to the poor, the landless, the artisans, handloom weavers, scheduled castes, scheduled tribes and other socially backward sections, will be revitalised and implemented in a dynamic manner. The minimum needs programme started during the Fifth Plan will once again be accorded high priority, with special stress on education and health.

Agriculture and rural development, with special emphasis on assistance to small and marginal farmers as well as agricultural labourers, will receive the highest priority in the Government's strategy. Immediate attention will be given to alleviate the distress caused by the widespread drought. All assistance will be extended to the farmers to achieve maximum production by ensuring proper and timely supply of inputs like fertilizers, credit, water, electricity, diesel, kerosene etc. For this the co-operation of the State Governments will be secured in full measure. It will be the Government's endeavour to ensure proper remunerative prices to the farmer for his produce. While providing for sustained growth of agriculture the Government will devote greater attention to the production of commodities such as oilseeds to eliminate our dependence on foreign sources for such vital necessities.

Infra-structural facilities which had deteriorated leading to transport bottlenecks and inadequate supply of crucial inputs like steel, cement, coal and power will be strengthened and given very high priority. The efficiency of movement by railways and by ships as also prompt clearance of goods at ports will be ensured by close monitoring and timely remedial action.

On the industrial front emphasis will be laid on the rapid increase in industrial production through better utilization of existing capacity, improved labour relations and better management particularly of public sector undertakings. Efforts will be directed to systematic expansion of our exports through better management of both the agricultural and industrial sectors.

The country is faced with a massive energy crisis. We are entering a period of rising energy costs and likely shortages in supplies. The Government proposes to evolve a comprehensive national policy on Energy with emphasis on fuller utilization of renewable energy sources, both traditional and non-traditional.

The steady deterioration of the environment threatens the present and future well-being of the country and the people. Afforestation, flood control, soil conservation, preservation of flora and fauna, proper land use planning, water and air pollution controls, and judicious location of industries must be undertaken urgently. The Government is setting up a specialised machinery with adequate powers to incorporate in all planned development measures to maintain the ecological balance.

The role of Science and Technology will be strengthened. Steps will be taken to ensure that research and development get their due place in all important sectors of national endeavour.

The Government reiterates its commitment to the freedom of the Press. It believes in providing all possible encouragement for the development of small and medium newspapers including those in regional languages.

An independent judiciary is a necessary concomitant of the democratic process. The Government is anxious that our legal system should provide speedy justice and that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. Measures for this purpose and other allied matters are proposed to be initiated.

The Government is committed fully to secularism and will take steps to ensure that the minorities, while preserving their distinct cultural identities, enjoy a sense of full and equal participation in all spheres of national life. Legislation for assuring the minority character of the Aligarh Muslim University will be introduced in the next Session.

In a polity like ours, healthy relations between the Centre and the States are essential for effective functioning. It will be the endeavour of the Central Government to maintain and foster such relations.

In international affairs, the Government will follow the path of non-alignment. India has always stood steadfast in the independence of its judgement in the making of her foreign policy. Neither pressures nor blandishments have swayed us from the pursuit of our own national interests. Consistent with the above principles the Government intends to promote our essential goals without fear or favour. The Government will pursue a dynamic, positive and unifying policy. It will endeavour to narrow the gap between the developed and developing nations so as to ensure enduring peace and equitably distributed prosperity. On the basis of sovereign equality mutual respect and non-interference in internal affairs, it will maintain and strengthen friendly relations with all countries.

The intervention of outside forces and the induction of armaments in the region as well as in our neighbourhood have created a dangerous situation not only for ourselves but for the entire area. Recent developments in Afghanistan highlight the re-emergence of the cold war. This is a matter of grave concern. The countries of the region should be allowed to devote their energies to the promotion of regional stability and co-operation with one another. The resources of the region are enormous and should be utilised for the welfare of the people there. To subject these countries to Big Power rivalries is totally unacceptable to us. The Government intends to initiate consultations and action to foster co-operation for the well-being of the entire region.

With our neighbours, the Government intends to follow a policy of co-operation and friendship. With Pakistan our relations are in the process of normalisation and the Government proposes to continue on the course set in motion by the Simla Agreement of 1972. We hope that the Government's policy will be reciprocated in ample measure.

Sino-Indian moves towards normalised relations, a potentially stabilising factor, were inevitably affected by the Sino-Vietnam conflict. India remains willing to discuss all issues with China including the boundary question in search of a peaceful solution based on equality. We hope to progress also as regards bilateral exchanges.

Our friendship with Vietnam remains a constant factor in our policy. We stand for a Kampuchea able to seek its own destiny free of outside pressure. We intend to continue to improve our relations with ASEAN for whose members we have goodwill and understanding. The need in South East Asia is for mutual confidence and relaxation of tensions.

Distance has been no bar to our forging close and friendly relations with the countries of Latin America or the far-flung countries of the Commonwealth. Our relations with Japan and the countries of Europe are comprehensive in nature and are mutually satisfying.

With our brethren in Africa we have stood shoulder to shoulder in the struggle against colonialism and racialism. Our solidarity with the Arab cause is based on principles and we believe that a solution to the problems of West Asia cannot be found without conceding the legitimate demands of the Palestinians for their homeland.

Our relations with the Soviet Union have expanded, based on an abiding friendship which demonstrates the virtues of reliability and mutual understanding. We intend to deepen and extend this co-operation.

We have many-sided relations with the United States. These will be further consolidated in the context of the common values we cherish as sister democracies. We hope we can both co-operate in our efforts to establish peace and stability with development and co-operation in our region.

President Zia-ur-Rahman of Bangladesh has just concluded his visit to India. President Valéry Giscard d'Estaing of France will be our Chief Guest at the Republic Day celebrations this year. Chancellor Kreisky of Austria and President Castro of Cuba are visiting us shortly. We are confident that such exchanges significantly strengthen our relations with other countries.

Honourable Members, the present Session will be a short one. You have to attend to urgent legislative business, the most important being the Amendment of the Constitution to continue reservations in the legislatures in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Anglo-Indians.

During the course of your five year tenure, many issues will come before you for consideration. A healthy and functioning parliamentary democracy proceeds according to well laid down rules of the game. Mutual respect has to be shown by the Government and the Opposition for each other. The harmonising of differing points of view in a spirit of accommodation and conciliation rather than conflict and confrontation is a necessary condition of democratic functioning. I urge all sections of the House to lay the controversies and conflicts of the past behind them and approach the urgent tasks confronting the nation in a spirit of co-operation and harmony, keeping in mind the need to serve the people and to uphold all that is in the national interest. I wish you all success in your efforts.

JAI HIND.

(Text of the Presidents' Address in Hindi)

माननीय सदस्यगण, सातवीं संसद के इस पहले संयुक्त सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी है। नई लोक सभा के सदस्यों का मैं अभिनन्दन करता हूँ।

छठी लोक सभा 1977 में निर्वाचित हुई थी लेकिन यह अपनी पूरी अवधि तक नहीं चल पाई और आधी अवधि से पहले ही इसे विघटित करना पड़ा। इसके विघटन के बाद कुछ महीनों तक देश का शासन बिना लोक सभा के ही चलाना पड़ा। सन्तोष की बात है कि अब पिछले कुछ महीनों की अस्थिरता समाप्त हो गई है। भारत के लोगों ने क्षेत्रीय, भाषायी, वर्गीय या साम्प्रदायिक भेदभावों पर आधारित विचारधाराओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिये असंदिग्ध रूप से अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने ऐसे लोगों की सरकार को चुना है जिन्हें देश के सभी भागों और जनता के सभी वर्गों का विश्वास प्राप्त है। चुनावों के नतीजे से ही यह हो पाया है कि आज हमारा देश केन्द्र में स्थायी शासन की आशा 'कर सकता है'।

खेद का विषय है कि कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों के कई चुनाव हल्कों के नुमाइन्दे आज यहां हमारे बीच नहीं हैं। इस इलाके की, और इस समय खासतौर से असम की समस्याओं को तत्काल, सभी ओर से आपस में मेलजोल और भाईचारे की भावना से, हल करने की जरूरत है। इन समस्याओं का शीघ्र हल खोजने और हिंसा को खत्म करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सरकार सभी वर्गों से अपील करती है कि वे इसके लिए सही माहौल पैदा करने के काम में उसका हाथ बढ़ायें।

राष्ट्र-विरोधी शक्तियां हमारी सीमाओं पर सक्रिय हो गई हैं जिससे हमारी सुरक्षा के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया है। देश के कई हिस्सों में साम्प्रदायिक और दूसरी विभाजक शक्तियां भी सर उठा रही हैं जिस सबब से राष्ट्रीय अखण्डता और राष्ट्रीय एकता के आदर्शों को गहरी चोट पहुंच रही है। भाषायी और दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों, हरिजनों और समाज के कमजोर तबकों की आस्था को गहरी ठेस लगी है। अपराधों में बढ़ोतरी होने की वजह से और उनका पता लगाने तथा उन्हें रोकने के लिए किए गए नाकाफी उपायों के कारण कानून-प्रिय लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। कानून के प्रति अन्याय और चरों और फैली अनुशासनहीनता ने उत्पादन के प्रयासों की गति धीमी कर दी है।

मौजूदा सरकार को विरासत में मिली आर्थिक स्थिति गहरी चिन्ता और बेचैनी का विषय है। पिछले वर्ष मुद्रा-स्फीति का कुचक्र देखने में आया जिसमें मूल्यों में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि हुई कृषि उत्पादन को भारी धक्का लगा है और औद्योगिक उत्पादन में कोई प्रगति नहीं हुई है। बुनियादी संरचना में गतिरोध आने से, खासतौर से, देश के कुछ भागों में, इस्पात और सीमेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन

में भारी गिरावट आई है। इस कारण हमें महंगे आयात करने पड़े हैं जब कि भारी लागत से बनी देशी क्षमता निष्क्रिय पड़ी रही है। कोयले के उत्पादन में भी वृद्धि नहीं के बराबर हुई है। निर्यातों में वृद्धि की दर घट गई है और व्यापार शेष भारी घाटे में चल रहा है। कारगर प्रबन्ध के अभाव में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की हालत बिगड़ गई है। औद्योगिक सम्बन्ध खराब हो गए हैं और सारे औद्योगिक क्षेत्र में मनोबल गिर गया है।

लोगों ने नई सरकार को जो विराट और व्यापक विश्वास दिया है उसमें उनकी यह चाह दिखाई देती है कि कानून और व्यवस्था तथा अर्थ-व्यवस्था में जो गिरावट आई है उसे रोक कर उनमें सुधार किया जाए। सरकार लोगों को यह आश्वासन देना चाहती है कि वह जरूर इसी दिशा में मजबूती और तेजी के साथ कदम उठाएगी।

सरकार का भरसक प्रयत्न होगा कि अव्यवस्था का दमन किया जाए और सभी लोगों में, खासतौर से कमजोर वर्गों के लोगों में, विश्वास की भावना फिर से पैदा की जाए केन्द्र और राज्यों के स्तर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सक्रिय किया जाएगा, ताकि समस्याओं को तत्परता और कारगर तरीके से हल किया जा सके।

माननीय सदस्यगण, नई सरकार ने कोई एक हफ्ता हुए ही काम संभाला है। बजट अगले सत्र में पेश किया जाएगा। उस समय सरकार के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाए जाने वाले सामाजिक और आर्थिक उपायों के बारे में बताया जाएगा। फिर भी ऐसे कुछ मामले हैं जिनका आज जिक्र करना जरूरी है।

सरकार दुहराना चाहेगी कि वह अब भी यही विश्वास करती है कि योजना के रास्ते से ही हम सामाजिक और आर्थिक

परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमें राष्ट्र-निर्माण का महान कार्य फिर से दुगुने उत्साह से शुरू करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां खुशहाल और बेहतर जिन्दगी की आशा कर सकें।

सरकार देश की आर्थिक स्थिति सुधारने की ओर तुरन्त ध्यान देगी। मूल्यों के नियंत्रण के लिए उपाय किए जाएंगे। तस्करों जमाखोरों और काला बाजारियों जैसे समाज-विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए अपने कर्तव्य के प्रति सचेत है। गरीबों, भूमिहीन लोगों, दस्तकारों, हथकरघा बुनकरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम वरदान सिद्ध हुआ था, उसमें नई जान डाल कर, अब उसे कारगर तरीके से अमल में लाया जाएगा। पांचवीं योजना में शुरू किए गए न्यूनतम-आवश्यकता कार्यक्रम को फिर से एक बार उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस सिलसिले में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जाएगा।

सरकार की यह नीति होगी कि कृषि और ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाए जिसमें छोटे और सीमान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को मदद देने पर खास जोर दिया जाएगा। व्यापक सूखे के कारण पैदा हुई मुसीबत को कम करने की ओर तत्काल ध्यान दिया जाएगा। उर्वरक, ऋण, पानी, बिजली, डीजल, मिट्टी का तेल आदि वस्तुओं के समय पर उचित सप्लाई सुनिश्चित करते हुए किसानों को अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सब प्रकार की सहायता दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त किया जाएगा। सरकार का यह प्रयत्न होगा

कि किसान को अपनी उपज का उचित लाभकारी मूल्य अवश्य मिल सके। कृषि के सतत विकास की व्यवस्था करते हुए सरकार तिलहनों जैसी वस्तुओं के उत्पादन की तरफ ज्यादा ध्यान देगी तकि इस प्रकार की जरूरी चीजों के लिए हमें दूसरे देशों का आसरा न लेना पड़े।

बुनियादी सुविधाओं की स्थिति खराब होने से परिवहन व्यवस्था में रुकावटें आ गई थीं और इस्पात, सीमेंट, कोयला और बिजली जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की सप्लाई अपर्याप्त हो गई थी, अब इसमें सुधार ला कर इन्हें उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। लगातार देखभाल तथा ठीक वक्त पर सही कार्रवाई करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रेलों और जहाजों द्वारा आतायात के कामों में दक्षता रहे और बन्दरगाहों पर माल की निकासी शीघ्र हो।

जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, मौजूदा क्षमता के बेहतर उपयोग, सुधरे हुए श्रम-संबंधों और खास तौर से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बेहतर संचालन द्वारा उत्पादन को तेजी के साथ बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कृषि और उद्योग, दोनों क्षेत्रों के बेहतर प्रबंध के द्वारा निर्यातों को व्यवस्थित रूप से बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।

देश के सामने ऊर्जा का भयानक संकट है। हम ऊर्जा की बढ़ती हुई कीमतों और उसकी सप्लाई में संभावित कमियों के दौर से गुजरने वाले हैं। सरकार का ऊर्जा के बारे में एक ऐसी व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का प्रस्ताव है जिसमें परम्परागत और गैर-परम्परागत, दोनों प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के पूरे-पूरे उपयोग पर जोर दिया जाए।

पर्यावरण के लगातार दूषित होने से क्या आज और क्या भविष्य में देश और जनता दोनों की खुशहाली के लिए खतरा पैदा हो गया है। वनरोपण, बाढ़-नियंत्रण, भू-संरक्षण, वनस्पति और जीव-जन्तुओं की रक्षा, भूमि के उचित उपयोग की योजना, जल और वायु प्रदूषण का नियंत्रण, और उद्योगों को सही स्थानों पर लगाने के कामों को तुरन्त हाथ में लिया जाना चाहिए। सरकार एक ऐसा विशिष्ट तंत्र गठित करने जा रही है जिसे सभी योजनाबद्ध विकास में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के उपायों को शामिल करने का पूरा-पूरा अधिकार होगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को सशक्त किया जायेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि अनुसंधान और विकास दोनों को राष्ट्रीय प्रयास के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उचित स्थान मिले।

सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी वचनबद्धता को दुहराती है। वह सभी छोटे और मध्यम समाचारपत्रों के विकास के लिए हर संभव प्रोत्साहन देने में विश्वास रखती है। इनमें प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्र भी शामिल होंगे।

स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक आवश्यक सहवर्ती तत्व है। सरकार की तीव्र इच्छा है कि हमारी कानून शक्ति में न्याय मिलने में देर न लगे और कोई भी नागरिक आर्थिक अथवा अन्य किसी असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे। इसके और दूसरे संबंधित मामलों के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

सरकार धर्मनिरपेक्षता के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध है और वह यह सुनि-

श्वित करने के लिए कदम उठाएगी कि अल्पसंख्यक वर्ग, अपनी स्वतंत्र सांस्कृतिक विशिष्टता को सुरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण और समान भागीदारी का अनुभव कर सकें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्प-संख्यक स्वरूप को आश्वस्त करने के लिए विधेयक अगले सत्र में लाया जाएगा।

जैसी हमारी राज्य-व्यवस्था है उसमें कारगर तरीके से काम करने के लिए यह जरूरी है कि केन्द्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंध हों। केन्द्रीय सरकार का प्रयास होगा कि ऐसे अच्छे संबंध बने रहें और पुष्ट हों।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, सरकार गुट-निरपेक्षता के रास्ते पर चलेगी। भारत हमेशा इस बात पर अटल रहा है कि अपनी विदेश-नीति का निर्माण करने में वह अपने ही विवेक से काम लेने के लिए स्वतंत्र है। अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के रास्ते से हमको कोई भी दबाव या प्रलोभन नहीं हटा पाए हैं। हमारी सरकार का इरादा है कि वह इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए हमारे मूल लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग पर बिना किसी डर या पक्षपात के आगे बढ़े। सरकार गतिशील, सकारात्मक और संघटनकारी नीति का अनुसरण करेगी। सरकार की कोशिश होगी कि विकसित और विकास-शील देशों के बीच की खाई को कम किया जाए ताकि स्थायी शांति स्थापित हो और विश्व की समृद्धि में सभी को समुचित हिस्सा मिल सके। सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान तथा एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति के आधार पर, वह सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखेगी और उन्हें सुदृढ़ करेगी।

क्या हमारे क्षेत्र में और क्या हमारे पड़ोस में, बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप और हथियारों के आने से न सिर्फ हमारे लिए बल्कि सारे क्षेत्र के लिए, एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। अफगानिस्तान में हुई हाल की घटनाएं शीत युद्ध की स्थिति फिर से पैदा होने का स्पष्ट संकेत देती है। यह गंभीर चिन्ता का विषय है। इस क्षेत्र के देशों को इस बात की स्तंत्रता होनी चाहिए कि वे अपनी शक्ति को क्षेत्रीय स्थायित्व स्थापित करने और परस्पर सहयोग बढ़ाने में लगा सकें। इस क्षेत्र के साधन विशाल हैं और उनका इस्तेमाल यहां के लोगों की खुशहाली के लिए किया जाना चाहिए। इन देशों को महाशक्तियों की आपसी होड़ों का शिकार बनना हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। शासन का इरादा है कि वह इस सारे क्षेत्र की खुशहाली के लिए आपसी परामर्श और सहयोग से कार्रवाई शुरू करेगा।

पड़ोसी देशों के साथ सरकार आपसी सहयोग और मित्रता की नीति अपनाना चाहती है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सामान्य हो रहे हैं और सरकार उस रास्ते पर चलते रहना चाहती है जिसकी शुरुआत 1972 के शिमला समझौते के साथ हुई थी। हमें उम्मीद है कि सरकार की नीति का उमुचित आदान-प्रदान कर सकेगा।

भारत-चीन संबंधों का सामान्य रहना स्थायित्व के लिए बड़ा जरूरी है। जाहिर है कि इस दिशा में की गई कोशिशें चीन-वियतनाम युद्ध के परिणामस्वरूप प्रभावित हुईं। चीन के साथ सीमा-विवाद सहित अन्य सभी मामले पर विचार करने के लिए भारत अब भी इच्छुक है ताकि समानता पर आधारित कोई शान्तिपूर्ण हल निकाला जा सके।

हम आशा करते हैं कि द्विपक्षीय आदान-प्रदान के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे।

वियतनाम के साथ हमारी मैत्री हमारी नीति का एक स्थिर तत्व रही है। हम चाहते हैं कि कम्पुचिया किसी बाहरी दबाव के बिना स्वयं अपने भविष्य को निर्धारित करे। दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के सदस्य-राष्ट्रों के प्रति हमारे मन में सद्भावना और सौहार्द है। हम चाहते हैं कि इन संबंधों में और सुधार हो। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में आपसी विश्वास का बढ़ना तथा तनावों का ढीला होना आवश्यक है।

लेटिन अमरीकी देशों अथवा राष्ट्र-मंडल के दूर-स्थित देशों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में भौगोलिक दूरी हमारे लिए बाधक नहीं हुई है। जापान और यूरोपीय देशों के साथ हमारे संबंध व्यापक और एक-दूसरे के लिए संतोषजनक हैं।

उपनिवेशवाद और प्रजातिवाद के विरुद्ध संघर्ष में हम अपने अफ्रीकी बन्धुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं। अरब आन्दोलन के साथ हमारी हमदर्दी सिद्धांतों पर आधारित है और हमारा विश्वास है कि अपने दतन के लिए फिलिस्तीनियों का वैध मांग को पूरा किए बिना पश्चिमी एशिया की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता।

सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध बढ़े हैं। ये संबंध ऐसी स्थायी मित्रता पर आधारित हैं जो भरोसे और आपसी मेलजोल की खूबियों को साबित करती हैं। हम चाहते हैं कि यह सहयोग और बढ़े और फले-फूले।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारे बहुमुखी संबंध हैं। दोनों देशों के लोकतांत्रिक होने के कारण हम कुछ समान मूल्यों का आदर करते हैं। इन्हें देखते हुए हमें भरोसा है कि ये संबंध और भी सुदृढ़ होंगे। हम आशा करते हैं कि हम दोनों इस प्रदेश में विकास और सहयोग के साथ-साथ शांति और स्थायित्व स्थापित करने के प्रयासों में एक-दूसरे के सहयोगी हो सकेंगे।

बंगलादेश के राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान अभी भारत आकर गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति वालेरी जिस्कार देस्तां इस वर्ष गणतन्त्र दिवस समारोह में हमारे मुख्य अतिथि होंगे। आस्ट्रिया के चांसलर फ्रेड्रिक् और क्यूबा के राष्ट्रपति कास्त्रो शीघ्र ही हमारे यहां आ रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस प्रकार के आदान-प्रदान अन्य देशों के साथ हमारे संबंधों को खास तौर से मजबूत बनाते हैं।

माननीय सदस्यगण, वर्तमान सब अल्प-कालिक होगा। आपको अत्यावश्यक विधायी कार्यक्रम संपन्न करना है जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लोइंडियनों के लिए विधान-मंडलों में आरक्षण जारी रखने के लिए संविधान में संशोधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

अगले पांच वर्षों के कार्यकाल में आपके विचार के लिए कई मुद्दे आएंगे। एक स्वस्थ और क्रियाशील संसदीय लोकतंत्र मुनिर्धारित नियमों को लेकर चलता है। सरकार और विपक्ष के बीच परस्पर आदर का भाव होना जरूरी है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों सामंजस्य अनकूलन और मेलमिलाप का भावना से हो, न कि परस्पर विरोध और मुकाबले की भावना से। सदन के सभी

वर्गों से मेरा अनुरोध है कि वे गए दिनों के विवादों और संघर्षों को भूला जनता की सेवा और राष्ट्रीय हितों के महत्व को ध्यान में रखते हुए वे देश के सामने जो बहुत जल्द ही काम हैं उनमें सहयोग और सामंजस्य की भावना से जुट जाएं। मेरी कामना है कि आपके प्रयास सफल हों।

जय हिन्द।

OBITUARY REFERENCES

MR. CHAIRMAN: I refer with profound sorrow to the passing away of two eminent personalities of our times, Lord Louis Mountbatten and Shri Jayaprakash Narayan, and also to the passing away of Shri Sanda Narayanappa, Shri Abdul Ghani, Shri R. K. Bhuwalka, Dr. (Shrimati) Seeta Parmanand and Shri A. M. Tariq, ex-Members of this House.

In the death of Earl Mountbatten of Burma, the world lost a great leader who distinguished himself in war as well as in peace. His death was more poignant because of the tragic circumstances in which he died. He was one of the best friends of India in England and had enormous goodwill and love for this country.

Though born in a royal family of England in 1900, Lord Louis Mountbatten worked his way up in life. Joining as a cadet in navy in 1913, he had a most distinguished career in the Royal Navy. He saw action in the two World Wars. At the young age of 43, Lord Mountbatten became Admiral in the Royal Navy and was the Supreme Allied Commander, South East Asia Command, during the Second World War. He was awarded an Earldom and chose the title of

Earl of Burma for his counter actions against the Japanese in Burma.

In February, 1947, the British Government announced its decision to transfer power to Indians by June, 1948 and in March, 1947, appointed Lord Mountbatten as Viceroy of India to hand over the reins of Government to the Indian people. He came to India with a high reputation and played the key role of bringing about the transfer of power to Indian hands on the 15th August, 1947. It was his irresistible charm, his indomitable energy, perseverance, optimism and above all, his unwavering friendship for India that prompted the Indian leaders to invite him to become the first Governor-General of free India. His profound understanding of the strength and sincerity of purpose of the leaders of the Indian freedom movement enabled him to bring about one of the greatest reconciliations of history in the field of Indo-British relations which removed all the rancour and ill-will generated by decades of freedom struggle from the yoke of British rule.

On relinquishing the office of the Governor-General of India on 21st June, 1948, Lord Mountbatten returned to active naval service. In April, 1955, he was appointed the First Sea Lord, and in 1958, the Chief of the Defence Forces in the United Kingdom, from which he retired in 1965. He continued to take close and active interest in India and was a frequent distinguished visitor to this country.

Lord Mountbatten was a man of manifold abilities and had distinguished himself almost in all spheres of life. He was credited with so many accomplishments that historians have difficulty in pin-pointing his single greatest achievement. Lord Mountbatten will always be remembered in India not only as the first Governor-General but as an Englishman who had great love, affection and admiration for this country.